

## प्रेस नोट दिनांक 13.01.2021 जनपद मेरठ



### थाना जानी पुलिस ने लूट की मोटरसाईकिल के साथ तीन बदमाशों को अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ द्वारा अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये गये अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सूर्यदीप सिंह मय है०का० 1081 बिजेन्द्र सिंह मय का० 1240 मोनू चौधरी मय का० 3002 अनुज कुमार मय का० 2991 रंजन सरोहा के द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान भोला झाल से दिनांक 12.1.21 को समय करीब 15.30 बजे अभियुक्तगण 1. अजीम पुत्र खुर्शीद नि० शौकीन गार्डन लिसाडी रोड थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ 2. इमरान पुत्र सलाउद्दीन नि० शौकीन गार्डन लिसाडी रोड थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ 3. फुरकान पुत्र सलीम नि० मेहताब सिनेमा के पीछे थाना सदर बाजार जनपद मेरठ को चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर बरामदगी के साथ अभियुक्तगणों के कब्जे से क्रमशः अवैध तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक एक अदद चाकू बरामद हुआ है। अभियुक्तगण किसी घटना की फिराक में थे।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

क्र.	नाम पता अभियुक्त	अवैध अस्लाह बरामदगी	कृत कार्यवाही
.1	अजीम पुत्र खुर्शीद निशौकीन गार्डन 0 लिसाडी रोड थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ	एक अदद तमंचा बोर 315 315 मय दो जिन्दा कारतूस बोर मय मोटरसाईकिल	मु० 414/482/420 धारा 21/12 0स०अ० भादवि, मु० आयुद्ध अधि 25/3 धारा 21/13 0स०अ०
.2	इमरान पुत्र सलाउद्दीन निशौकीन 0 गार्डन लिसाडी रोड थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ	एक अवैध चाकू मय मोटरसाईकिल	मु० भादवि 414/482/420 धारा 21/12 0स०अ०, मु० आयुद्ध अधि 25/4 धारा 21/14 0स०अ०
.3	फुरकान पुत्र सलीम निमेहताब 0 सिनेमा के पीछे थाना सदर बाजार जनपद मेरठ	एक अवैध चाकू मय मोटरसाईकिल	मु० अ० स० 12/21 धारा 420/482/414 भादवि, मु० अ० स० 14/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि०

### अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जानी पुलिस द्वारा भोला झाल से अभियुक्त अजीम पुत्र खुर्शीद नि0 शौकीन गार्डन लिसाडी रोड लिसाडी गेट थाना लिसाडीगेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद सीएमपी 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना मवाना पुलिस द्वारा फलावदा बाईपास से अभियुक्त हारून उर्फ कल्लू पुत्र अफलातून नि0 भैसा रोड मौ0 इकरामनगर कस्बा व थाना मवाना मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूश 315 बोर बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

### अवैध चाकू सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जानी पुलिस द्वारा भोला झाल से अभियुक्त इमरान पुत्र सलाउद्दीन नि0 शौकीन गार्डन लिसाडीरोड लिसाडीगेट थाना लिसाडीगेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना जानी पुलिस द्वारा भोला झाल से अभियुक्त फुरकान पुत्र सलीम नि0 महताब सिनेमा के पीछे सदरबाजार थाना सदरबाजार मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

### अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा तिरंगा पार्क से अभियुक्त कपिल गोयल पुत्र मदन लाल गोयल नि0 सैक्टर 3 माधवपुरम थाना ब्रह्मपुरी मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते पकडा जाना जिसके कब्जे से पर्ची सट्टा, गत्ता, पेन्सिल व 800 रुपये नगद बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना खरखौदा पुलिस द्वारा ग्राम नरहाडा से अभियुक्तगण 1. हनीफ पुत्र सरदार नि0 ग्राम नरहाडा थाना खरखौदा मेरठ, 2. अल्सव पुत्र इरफान नि0 तालाब के पास ग्राम नरहाडा थाना खरखौदा मेरठ, 3. शाकिब पुत्र शनीफ नि0 ग्राम नरहाडा थाना खरखौदा मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते पकडा जाना जिनके कब्जे से 780-630-610 रुपये नगद, सट्टा पर्चा व पेन्सिल बरामद होना। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खरखौदा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।